

ईश्वरीय
खजाना
टीम
Presents

विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की
भिन्न भिन्न युक्तियाँ
बाबा की रोज
जैसे मीठी थपकी है
अन्तर्मन में
जो समा ले इसे
जीवन में उसकी सफलता
शत प्रतिशत पक्की है...



मीठे बच्चे - पढ़ाई
कभी भी मिस नहीं
करना, पढ़ाई का
शौक तब रहेगा जब
पढ़ाने वाले बाप में
अटूट निश्चय होगा,
निश्चय बुद्धि बच्चे ही
सर्विस कर सकेंगे



**खुद खुदा हमारा मात-पिता है, इसी
स्मृति व नशे से माया पर जीत पाने की
हिम्मत आ जायेगी। हिम्मत रखने वाले
बच्चे विजयी अवश्य बनते।**



सर्व शक्ति संपन्न



योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात् शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाए। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है तो भी समय पर धोखा खा सकते हैं। चाहिए सहनशक्ति और आप यूज़ करो सामना करने की शक्ति, तो योगयुक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। चार ही सबजेक्ट में स्मृति स्वरूप की निशानी -स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निःस्वार्थ भाव। वायुमण्डल में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी।

अभ्यास- योग में अनुभवी मूरत बन योग द्वारा स्वयं में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए स्वयं को निर्विघ्न बनाना है।



Baba

me-"बाबा", सब मेरे खिलाफ है?

Baba-पर मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना बच्चे

me-पर बाबा अगर आप ने भी छोड़ दिया

तो? मैं क्या करूँगी?

Baba-मीठे बच्चे", मैं जल्दी से किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर एक बार किसी की अपना लूँ तो उसकी जिंदगी में **permanent** के लिए आ जाता हूँ, इसलिए फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ!!!

शुक्रिया प्यारे शिव बाबा शुक्रिया
जब आप "मैं हूँ ना" कहते हो तो
लगता है सारी दुनिया मिल गई ।

ब्रह्माबाप की शिक्षा देने की विधि

बापदादा- 18.01.1997

ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षादाता बन शिक्षा भी देते लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है - अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव नहीं आवे, यह तो बदलने वाले ही नहीं हैं, यह तो हैं ही ऐसे। नहीं। अभी आवश्यकता है रहमदिल बनने की क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते, तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा, सिवाए प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। यह तो फाइनल रिजल्ट है, शिक्षा काम नहीं करती लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहमदिल यह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, तो भी उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से, युक्ति से देता और फिर उसको बहुत प्यार भी करता, जिससे वह समझ जाते कि बाबा का प्यार है और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती।




कोई हमें गुस्सा करता है, कोई निंदा
कोई झूठ तो कोई धोखा देता है।
वह हमें दर्द नहीं दे रहे
वह खुद बहुत दर्द में हैं
स्नेह में सहन नहीं करना पड़ता।

मैं अपनी सहन शक्ति से
अपमान और उदासी के
असुरों पर जीत पाती हूँ।

। बल इकठ्ठे।





**स्लोगन:-अपने
स्वमान की सीट
पर सेट रहो तो
माया आपके
आगे सरेन्डर हो
जायेगी**



Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org